



एफ.1002/केमाशिबो/निदेशक(शैक्षणिक)/गणित/2019

10 जनवरी 2019
परिपत्र सं. शैक्षणिक - 03/2019

केमाशिबो से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय : शैक्षणिक सत्र मार्च, 2020 से अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए गणित के दो स्तरों का परिचय -

एन सी एफ 2005, राष्ट्रीय फोकस समूह परीक्षा सुधार द्वारा स्थिति पत्र में कहा गया है कि - जैसे हम छात्रों और विद्यालयों को अनुमति देते हैं, वैसे ही उन्हें उनके विषयों के चयन में भी उस विषय के अंतर्गत दो स्तरों में से एक स्तर चुनने का विकल्प होना चाहिए। एन सी एफ के अनुसार, परीक्षा का द्वि-स्तरीय होना न केवल विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की पूर्ति करेगा और परीक्षण के विभिन्न स्तरों को अनुमति प्रदान करेगा और साथ ही यह विद्यार्थी के तनाव के समग्र स्तर को कम करेगा। यह सर्वविदित है कि विद्यार्थी सबसे कठिन विषय की परीक्षा से पहले और उसके दौरान सबसे अधिक तनाव महसूस करते हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने सत्र मार्च 2020 से गणित में परीक्षा के दो स्तरों को शामिल करने का निश्चय किया है। इस योजना का विवरण निम्नानुसार है:

- सत्र 2020 में कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में दो स्तर होंगे और यह कक्षा 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन में लागू नहीं होगा।
- कक्षा 9वीं की परीक्षा/मूल्यांकन के लिए दो स्तर नहीं होंगे।
- प्रथम स्तर वर्तमान स्तर के समान होगा और दूसरा स्तर आसान होगा।
- दो परीक्षाओं के लिए शब्दावली होगी : परीक्षा के मौजूदा स्तर के लिए गणित मानक, और आसान स्तर की परीक्षा के लिए गणित-बेसिक
- परीक्षा के दोनों स्तरों के लिए पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण और आंतरिक मूल्यांकन समान होगा, ताकि विद्यार्थियों को पूरा वर्ष सभी विषयों को पढ़ने का अवसर मिले और वे अपनी अभिवृत्ति और योग्यता के आधार पर बोर्ड परीक्षा के स्तर को समझने में सक्षम हों।
- जो विद्यार्थी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गणित विषय का चयन करना चाहते हैं उनके लिए मानक स्तर और बेसिक स्तर होगा जो उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं।
- संबद्ध विद्यालय द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षार्थियों की सूची (एलओसी) जमा करते समय एक छात्र को परीक्षा के दो स्तरों के बीच चयन करने का अधिकार होगा।
- यदि छात्र गणित के किसी भी स्तर पर अनुत्तीर्ण होता है, तो वह बोर्ड के मानदंडों के अनुसार नीचे दिये गए विकल्पों के अनुसार कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित हो सकता है :

अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में	कम्पार्टमेंट विकल्प
गणित - बेसिक	गणित - बेसिक
गणित - मानक	गणित मानक या गणित - बेसिक

- एक छात्र जो गणित-बेसिक में योग्यता प्राप्त करता है, उसे बोर्ड के मानदंडों के अनुसार कम्पार्टमेंट की परीक्षा में गणित - मानक में प्रदर्शित होने का विकल्प दिया जाएगा, यदि वह वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गणित विषय के प्रति अपना मन बदल लेता है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

गणित के दो स्तरों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संदर्भ हेतु संलग्न हैं। शैक्षणिक सत्र मार्च 2020 के लिए डिज़ाइन किया गया पाठ्यक्रम वेबसाइट www.cbseacademic.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवारों की सूची की भरने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश संबद्ध विद्यालयों को अलग से जारी किए जायेंगे।

(डॉ. जोसफ इमानुवल)
निदेशक (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित निदेशालय/केवीएस/एनवीएस/सीटीएसए के संबंधित प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त संबंधित स्कूलों में जानकारी का प्रसार करने हेतु :-

19. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18- इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 16
20. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
21. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
22. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
23. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
24. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर-791111
25. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
26. शिक्षा निदेशक, एस. आई. ई., केमाशिबो सेल, वी आई पी रोड, जंगली घाट, पी.ओ. 744103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
27. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली
28. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेनाभवन, डीएचक्यू पीओ, नईदिल्ली – 110001
29. सचिव आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 202,
30. शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैट – 110010
31. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में, बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें
32. उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो के सभी प्रमुख
33. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, केमाशिबो
34. आई.टी. प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की वेबसाइट पर डाल दें
35. वरिष्ठ जन-संपर्क अधिकारी, केमाशिबो
36. निजी सचिव, अध्यक्ष, केमाशिबो
37. सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव, परीक्षा नियंत्रक, निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), निदेशक (एडूसेट व अनुसंधान), निदेशक (कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण), निदेशक (विशेष परीक्षा व सी टी ई टी), केमाशिबो

निदेशक (शैक्षणिक)

‘शिक्षा सदन’, 17, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली- 110 002

“Shiksha Sadan”, 17, Rouse Avenue, New Delhi – 110 002

फोन/ Telephone : +91-11-23212603, 23234324 वेबसाइट/Website : www.cbseacademic.in